



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402

Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : CED 43/T-91

Date : 05 April 2023

TECHNICAL COMMITTEE : Soil And Foundation Engineering, CED 43

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Soil And Foundation Engineering Sectional Committee, CED 43. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : CED 43 (22265) WC

Title of the document : Draft Indian Standard Split spoon sampler for standard penetration test of soil — Specification (First Revision of IS 9640)

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

1) *It covers the requirements of split spoon sampler used for conducting in-situ standard penetration test in soils.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 06 May 2023

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at ced@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New

Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
(S ARUN KUMAR)
Sc. 'E'/Director and Head (Civil Engg.)
Email: ced@bis.gov.in



व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : CED 43/T-91

दिनांक : 05-04-2023

तकनीकी समिति : Soil And Foundation Engineering Sectional Committee, CED 43

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : CED 43 (22265) WC

शीर्षक : मृदा के मानक भेदन परीक्षण के लिए स्प्लिट स्पून सैम्पलर ¾ विशिष्ट का भारतीय मानक मसौदा (IS 9640 का पहला पुनरीक्षण)

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 06 May 2023

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,

विभाग प्रमुख का नाम : अरुण कुमार एस.
वै. 'ई'/निर्देशक और प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)
ई-मेल : ced@bis.gov.in

